



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1984/चैत्र 4, 1906

No. 130]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1984/CHAITRA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

अभिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

का. आ. 195(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर 24-3-1984 से राजस्थान राज्य में भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा और अजमेर जिलों की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ. 1-33/83-आर आर. बी. (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd March, 1984

S.O. 195(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional

Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, on being requested so to do by Bank of Baroda establishes, with effect from the 24-3-1984 a Regional Rural Bank in the State of Rajasthan under the name of Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the Districts of Bhilwara and Ajmer in the State of Rajasthan.

[No. F. 1-33/83-RRB (I)]

का. आ. 196(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ बड़ौदा से परामर्श करके भीलवाड़ा को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ. 1-33/83-आर. आर. बी. (2)]

S.O. 196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda by which Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank

has been sponsored specifies Bhilwara as the place where Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-33/83-RRB (II)]

का. आ. 197(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (3) के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, भीलवाड़ा—अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संस्था एफ. 1-33/83-आर. आर. बी. (3)]

S.O. 197(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Central Government hereby notifies, for the purpose of the said sub-clause, Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank, Bhilwara being an institution established under sub-section (1) of Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-33/83-RRB(II)]

का. आ. 198(अ) :—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एम. एल. जैन को भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 24-3-1984 से प्रारम्भ होकर 31-3-1987 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एम. एल. जैन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संस्था एफ. 1-34/83-आर. आर. बी. (4)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri M.L. Jain as Chairman of the Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank, Bhilwara and specifies the period commencing on the 24-3-1984 and ending

with the 31-3-1987 as the period for which the said Shri M. L. Jain shall hold office as such Chairman.

[No. F-1-33/83-RRB (IV)]

ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग)

अधिसूचना

बम्बई, 24 मार्च, 1984

का. आ. 199(अ) :—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसार में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

“भीलवाड़ा—अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा (राजस्थान)”।

[आर. बी. सी. जी. सं. 280/आई. एन. सी. एस-311/84]

टी. एन. अनन्तराम अय्यर,

कार्यपालक, निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT NEW CENTRAL OFFICE BUILDING

Bombay, the 24th March, 1984

NOTIFICATION

S.O. 199(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank, Bhilwara (Rajasthan).”

[Ref. RPCD. No. 280/INCL-311/84]

T. N. ANANTHARAM IYER

Executive Director